



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2002/श्रावण 22, 1924

No. 367 ]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2002/SRAVANA 22, 1924

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 78/2002-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 556(अ).—अभिहित प्राधिकारी, दक्षिण अफ्रीका और मैसेडोनिया (जिन्हें उसमें विषयगत देश कहा गया है) में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 7202.21 के अंतर्गत आने वाले फेरो-सिलिकोन के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 11 जुलाई, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि,—

- (i) विषयगत देश में फेरो-सिलिकोन या विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है;
- (ii) भारतीय उद्योग का सरवान् क्षति हुई है;
- (iii) यह क्षति विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और यह आवश्यक समझा गया है कि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित फेरो-सिलिकोन के सभी आयातों पर, अंतिम अवधारण के लंबित रहने तक, अनन्तिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर नीचे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट देश या राज्य क्षेत्र में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 7202.21 के अंतर्गत आने वाले फेरो-सिलिकोन पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट निर्यातकर्ताओं द्वारा जब निर्यात किया जाए और भारत में उसका आयात किया जाए, उस दर पर जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम के और इस प्रकार आयातित फेरो-सिलिकोन के प्रति मीट्रिक टन के अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर है, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

## सारणी

क्रम सं.	देश का नाम	निर्यातकर्ता का नाम	रकम (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
1	2	3	4
1.	दक्षिण अफ्रीका	सभी निर्यातकर्ता	731.59
2.	मैसेडोनिया	सभी निर्यातकर्ता	731.59

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क 12 फरवरी, 2003 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "अवतरण मूल्य" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा अवधारित निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत हैं और जिसमें उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 3क, धारा 8ख, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्गृहीत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क सम्मिलित हैं।
- (ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनिमय दर" वह दर होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो और "विनिमय दर" के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन "प्रवेश प्रत्र" के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/132/2002-टीआरयू]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 78/2002-Customs

**G.S.R. 556(E).**— Whereas in the matter of import of Ferro-silicon falling under sub-heading 7202.21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, South Africa and Macedonia (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th July, 2002, has come to the conclusion that —

- (i) Ferro-silicon or product under consideration has been exported to India from subject countries below normal value;
- (ii) the Indian industry has suffered material injury;
- (iii) the injury has been caused by the dumped imports from the subject country.;

and has considered it necessary to impose anti-dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of ferro-silicon, originating in, or exported from, the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the above findings of the designated authority, hereby imposes on Ferro silicon falling under sub-heading 7202.21 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the country specified in column (2) of the Table annexed hereto, when exported by exporter specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, and imported into India, and anti-dumping duty at the rate which is equivalent to the difference between the amount specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and the landed value of such imported ferro silicon per metric tonne.

TABLE

S.No	Name of the Country	Name of the exporter	Amount (US\$/Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	South Africa	All exporters	731.59
2	Macedonia	All exporters	731.59

2 The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 12th day of February, 2003 and shall be paid in Indian currency.

*Explanation.*— For the purposes of this notification.—

(a) “landed value” means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate, which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance & Company Affairs (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred under Sub-clause (1) of clause (a) of Sub-section (3) of Section 14 of the said Customs Act and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/132/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 79/2002-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 557(अ).—अभिहित प्राधिकारी, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूरोपीय संघ में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2907.11 या 2707.60 के अंतर्गत आने वाले फिनोल के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 24 जून, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि,—

- (क) फिनोल का दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है;
- (ख) भारतीय उद्योग को तारिफिक क्षति हुई है;
- (ग) यह क्षति दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूरोपीय संघ से पाटित आयातों द्वारा कारित हुई है;

और माना गया है कि दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और यूरोपीय संघ के मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए फिनोल के आयातों पर अंतिम अवधारण के संबंधित रहने के दौरान, अनन्तिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम को धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट देश या राज्यक्षेत्र में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2907.11 या 2707.60 के अंतर्गत आने वाले उक्त फिनोल पर, जब वह उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट उत्पादकों/निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात किया जाए और भारत में आयात किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

## सारणी

क्रम सं.	देश/राज्यक्षेत्र का नाम	उत्पादक/निर्यातकर्ता का नाम	रकम (प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डालर)
1	2	3	4
1.	सिंगापुर	मित्सुई एण्ड कम्पनी लि.	95.77
2.	सिंगापुर	मित्सुई फिनोल सिंगापुर पीटीई लि.	101.62
3.	सिंगापुर	क्रम. सं. 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट निर्यातकर्ताओं से भिन्न निर्यातकर्ता	161.38
4.	दक्षिण अफ्रीका	मेरीसोल आर एस ए (क) प्रपुंज विक्रय (ख) ड्रम विक्रय	89.12 24.76
5.	दक्षिण अफ्रीका	क्रम. सं. 4 के सामने विनिर्दिष्ट निर्यातकर्ताओं से भिन्न निर्यातकर्ता (क) प्रपुंज विक्रय (ख) ड्रम विक्रय	222.74 130.60
6.	यूरोपीय संघ	सभी निर्यातक	109.49

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क 12 फरवरी, 2003 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/124/2002-टीआरयू]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

## No. 79/2002-CUSTOMS

**G.S.R. 557 (E) :—** Whereas in the matter of import of Phenol falling under sub-heading 2907.11 or 2707.60 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, South Africa, Singapore and European Union, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th June, 2002 has come to the conclusion that —

(a) Phenol has been exported to India from South Africa, Singapore and European Union below its normal value;

(b) the Indian industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused by the dumped imports from South Africa, Singapore and European Union;

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty, pending final determination, on imports of phenol, originating in, or exported from, South Africa, Singapore and European Union.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on Phenol, falling under sub-heading 2907.11 or 2707.60 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the country/territory specified in column (2) of the

Table given below, when exported by producers/exported specified in column (3) of the said Table, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S No.	Name of the Country/territory	Name of the producer/exporter	Amount (US\$/Metric tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Singapore	Mitsui & Co. Ltd.	95.77
2.	Singapore	Mitsui Phenol Singapore Pvt Ltd.	101.62
3.	Singapore	Exporters other than those specified against S.No. 1 and 2	161.38
4.	South Africa	Metisol RSA	
		(a) Bulk sales	89.12
		(b) Drum sales	24.76
5.	South Africa	Exporters other than that specified against S.No. 4	
		(a) Bulk sales	222.74
		(b) Drum sales	130.60
6.	European Union	All exporters	109.49

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 12th day of February, 2003, and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.**— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act

[F.No. 354/124/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 80/2002-सीमा-शुल्क

**सा.का.नि. 558(अ).**— अभिहित प्राधिकारी, यूरोपीय संघ, सिंगापुर और जार्जिया में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2936.21 के अंतर्गत आने वाले विटामिन ए पामीटेड के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 1 मई, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि,—

(क) यूरोपीय संघ और जार्जिया में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए विटामिन ए पामीटेड का भारत में आयात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) घरेलू उद्योग को सारवान् क्षति हुई है;

(ग) यह क्षति यूरोपीय संघ और जार्जिया से आयातों के कारण हुई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर नीचे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट देश या राज्य क्षेत्र में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2936.21 के अंतर्गत आने वाले विटामिन ए पामीटेड पर जब उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट उत्पाद का निर्यातकर्ताओं द्वारा उसको निर्यात किया जाए और भारत में आयात किया जाए, उस दर से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम के और इस प्रकार आयातित विटामिन ए पामीटेड के अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम के अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर है, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

2519 21/02-2

## सारणी

क्रम सं	देश/राज्यक्षेत्र का नाम	उत्पादक/निर्यातकर्ता का नाम	रकम (भरमरीको डालर प्रति किलोग्राम)
1	2	3	4
1.	यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक/निर्यातकर्ता	113.84
2.	जार्जिया	सभी उत्पादक/निर्यातकर्ता	113.84

**टिप्पण—**सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रकम 1.7 एमआईयू/ग्रा. की प्रबलता की विटामिन ए पामिटेड को लागू होती हैं, 1.7 एमआईयू/ग्राम से भिन्न प्रबलता की विटामिन ए पामिटेड के लिए, स्तंभ (4) के प्रयोजन के लिए रकम की संगणना, सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रकम को 1.7 द्वारा विभाजित करके और भागफल को, आयातित विटामिन ए पामिटेड की एमआईयू/ग्रा. में प्रबलता से गुणा करके की जाएगी।

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क 12 फरवरी, 2003 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “अवतरण मूल्य” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा अवधारित निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है और जिसमें उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 3क, धारा 8ख, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्गृहीत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क सम्मिलित हैं।
- (ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “विनियम दर” वह दर होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो और “विनियम दर” के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “प्रवेश प्रत्र” के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/80/2002-टीआरयू]

विधेक प्रसाद, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 80/2002-CUSTOMS

**G.S.R. 558 (E):—** Whereas in the matter of import of Vitamin A Palmitate, falling under sub-heading 2936.21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, European Union, Singapore and Georgia, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 1st May, 2002 has determined that —

- (a) Vitamin A Palmitate, originating in, or exported from, European Union and Georgia has been exported to India below its normal value, resulting in dumping;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused by imports from European Union and Georgia;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, read with Rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on Vitamin A Palmitate, falling under sub-heading 2936.21 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the country/territory specified in column (2) of the Table given below, when exported by producers/exporters specified in column (3) of the said Table, and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the difference between the amount specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and the landed value, in US \$ per kilogram, of such imported Vitamin A Palmitate.

TABLE

S. No	Name of the country/territory	Name of the producer/exporter	Amount (US \$/kilogram)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	European Union	All producers/exporters	113.84
2	Georgia	All producers/exporters	113.84

**Note :—**The amounts specified in column (4) of the Table are applicable to Vitamin A Palmitate of strength 1.7 MIU/g. The amount for the purposes of column (4), for Vitamin A Palmitate of strength other than 1.7 MIU/g, shall be calculated by dividing the amount specified in column (4) of the Table by 1.7 and multiplying the quotient by the strength of imported Vitamin A Palmitate in MIU/g.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 12th day of February, 2003, and shall be payable in Indian currency.

*Explanation.*— For the purposes of this notification,—

(a) “landed value” means the assessable value as determined under the Customs, Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act; and

(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by subclause (i) of clause (a) of Sub-section (3) of Section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs, Act.

[F. No. 354/80/2002-TRU]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

